

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2888]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 24, 2013/पौष 3, 1935

No. 2888]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 24, 2013/PAUSHA 3, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3806 (अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 151(अ), तारीख 14 जनवरी, 2013 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा केरल राज्य के कासरगोड जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के 17.200 कि.मी. से 104.000 कि.मी. (कासरगोड सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 22 फरवरी, 2013 को "मातृ भूमि" और "मलयाला मनोरमा" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के 17.200 कि.मी. से 104.00 कि.मी. के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकार	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	
				उप विभाजन से पहले	उप विभाजन के बाद					
1	2	3	4	5		6	7	8	9	
1	कसारगोड	1. कसारगोड	1. बानागारोमाजेश्वरा	81/3B	81/11	निजी	शुष्क	180.89	1	गंगाधर
									2	चन्द्रहसा मेघा टावर, हौसगदी एवं अन्य
				27/1C1A	27/3	निजी	नम	366.03	1	रमणी
									2	जानकी
									3	कानप्पा
									4	नारायण
									5	राघव, अली ऑल आर रेजिडेन्ट एट मिथाकानिका, मंजेश्वर एवं अन्य
				103/4A1	103/19	निजी	शुष्क	43		श्री श्रद्धेश्वर मंदिर, वामांजूर, बंग्रामेश्वर रिप्रेजेन्टेड बाए ट्रस्टी
				103/8A	103/20	निजी	शुष्क	20		इन्दिरा, पत्नी नारासापाया नियर चैक पोस्ट, मंजेश्वर एवं अन्य
				110/1A	110/19	निजी	बाग	50		मूर्ती कादम्बार एवं अन्य
				111/4B	111/26	निजी	बाग	295		विजय कुमार शेट्टी एवं अन्य विन्ड्रन्स ऑफ नारायण शेट्टी नियर सेल्स टैक्स चैक पोस्ट, वामांजूर मंजेश्वर
				111/5A2	111/27	निजी	शुष्क	312		सुखलता पुत्री शिवाम्मा, नियर सेल्स टैक्स चैक पोस्ट, वामांजूर, बंग्रामेश्वर
				111/5B2	111/28	निजी	बाग	203		सुगंधी, पत्नी (सव.) शेखर नियर सेल्स टैक्स चैक पोस्ट मंजेश्वर एवं अन्य
				111/21	111/21	सरकारी	पोरम्बो क	345		थोडू, सचिव मंजेश्वरम ग्राम पंचायत
			2. मंगल पाडी	281/3B	281/9	निजी	शुष्क	243.44	1	एम एम यूसुफ
									2	एम ए खालिद
				281/4	281/10	सरकारी	पोरम्बो क	86.21		पोरम्बो सरकार
				256/7	256/14	निजी	नम	1846.13	1	बी एम मोहन
									2	फरीदा
									3	खादीजा
				260/1B	260/7	निजी	शुष्क	79.79	1	एम एम यूसुफ
									2	एम ए खालिद
				12/3A	12/11	निजी	शुष्क	22.48		जयाराम शेट्टी एवं अन्य
				10/1	10/2	निजी	शुष्क	3043.15	1	अनुराग
									2	अब्दुल रहीमन
									3	के एम मूसा एवं अन्य
									4	अब्दुल रहीमन
									5	जयाराम शेट्टी
				9/1	9/8	निजी	शुष्क	503.87	1	बालकृष्णन इमिराया
									2	मुहम्मद हाजी
									3	फकुदीन इकबाल खालनदार
				9/4	9/10	निजी	शुष्क	58.40	1	यूसुफ पुत्र पुकुन्ही

									2	जैनबा पत्नी मुहम्मद
			284/1B	284/19	निजी	शुष्क	73.77			आइशा पत्नी मुहम्मद
			284/8	284/20	निजी	बाग	179.07			सुन्दरी पुत्री बंडारी शेट्टी
			284/11B	284/21	निजी	नम	90.09			मालंगइ जामा मस्जिद
			286/2	286/20	निजी	शुष्क	2.82			राधा पत्नी कृष्णा होला
			286/12	286/22	सरकारी	पोरम्बो क	20.96			पोरम्बो सरकार, सचिव ग्राम पंचायत, मंगलपाण्डे
			13	13/2	सरकारी	पोरम्बो क	436.75			पोरम्बो सरकार, रिवर
			159/3A	159/15	निजी	नम	66.04			सुन्दरी पुत्री बंडारी शेट्टी
			159/3B	159/16	निजी	नम	33.43			सुन्दरी पुत्री बंडारी शेट्टी
			1/1A1	1/14	निजी	शुष्क	107	1		अब्दुल खादेर पुत्र अलिकुन्ही (स्व.) एवं अन्य
								2		आसिफ पुत्र मोइदीन नूरानी, नूरानी मंजिल
			1/2	1/15	निजी	शुष्क	22			हाजी एम ए अब्दुल खादेर, पुत्र मोइदीनकुन्ही, हुसैन विला नट्टाकल हाउस
			1/13	1/16	निजी	शुष्क	14			अब्बा हाजी
			6/5A1	6/13	निजी	शुष्क	9	1		इस्माइल शेख बुदन, पुत्र बुदेन रहीमन, बुदेन कोटज, नया बाजार
								2		ताफी पुत्र बुदन रहीमन
			6/6	6/14	निजी	शुष्क	75	1		नूरुदीन पुत्र अहमद फकीर (स्व.) आशिक मंजिल
								2		मुहम्मद सलीम पुत्र अहमद फकीर एवं अन्य
			284/3B	284/3B	निजी	शुष्क	185			आइशा पत्नी मुहम्मद हाजी, मालंगी
			254/2	254/7	निजी	शुष्क	914	1		रमेश पुत्र धूमा रामा बंगला एवं अन्य
								2		गुलिगा बाना
								3		पुरुषोत्तम पुत्र धूमा राम बांगरा
								4		श्रवणी पत्नी संजीवा शेट्टी, शेट्टी निलाया
								5		राजेन्द्र शेट्टी पुत्र रमयया शेट्टी (स्व.)
								6		कारिया नारायण शेट्टी पुत्र थुकाप्पा शेट्टी
								7		मोइदीन पुत्र मूसा (स्व.) अशरफ मंजिल
			254/3	254/8	निजी	बाग	50			बाबू पुत्र राम (स्व.) मुट्टम गेट
			258/2	258/6	निजी	शुष्क	5			मालंगी जामा मस्जिद
		3. कुडलु	12	12/10	सरकारी	बाग	311.96	1		डारैक्टर, सी पी सी आर आइ कुदलू
				12/11	सरकारी	बाग	777	2		डारैक्टर, सी पी सी आर आइ कुदलू
			27/2A	27/3	सरकारी	बाग	862.23			डारैक्टर, सी पी सी आर आइ कुदलू
			27/2C	27/4	सरकारी	बाग	616.91			डारैक्टर, सी पी सी आर आइ कुदलू
			28	28/2	सरकारी	बाग	402.24			डारैक्टर, सी पी सी आर आइ कुदलू
			29/1A	29/4	निजी	शुष्क	255.18			राष्ट्रपति, नूरुल हुडा जामा मस्जिद
			29/1B1A	29/5	निजी	शुष्क	367.44	1		मोइदीनकुन्ही
								2		कोशल्या
			29/1B1B	29/6	निजी	शुष्क	387.56	1		मुहम्मद हाजी
								2		अब्दुल साथर
								3		मेहमूद
			29/1B2	29/8	सरकारी	बाग	2285.25			डारैक्टर, सी पी सी आर आइ कुदलू
			60/3	60/5	निजी	बाग	38.68			ए के मुहम्मद
			60/4	60/6	निजी	बाग	32.98			ए के अब्बास
			65/5	65/9	निजी	बाग	48.73			ए के अब्बास
			37/1	37/5	निजी	बाग	53.34			इरियाल जामा मस्जिद
			37/2	37/6	निजी	शुष्क	249.55			मुहम्मदकुन्ही, पुत्र मोददीन
			37/4	37/7	निजी	शुष्क	297.52	1		मुहम्मद अली, पुत्र हसनार

								2	हाम्सा (डैरा सिटी)
								3	हसैनार
								4	इरियाल जामा मस्जिद
								5	ए पी जाफर
				38	38/2	सरकारी	बाग	2191.5 2	डारेक्टर, सी पी सी आर आइ कुदलू
				107/1A2	107/3	निजी	बाग	215	इब्राहम एंव अन्य, कुदलू
				107/1C2	107/4	निजी	बाग	1200	1 काविल भद्रा वीदु
								2	एम एच अब्दुल्ला पुत्र मुहम्मद हाजी
								3	एस एच हमीद पुत्र सुमान हाजी
								4	अहमद कुदलू
								5	श्रीमति कुजिवी
								6	अब्दुल खादेर
								7	हसैनार
								8	शिवप्रसाद पट्टेरी एंव 3 अन्य
				98/11B	98/19	निजी	बाग	396	1 अब्दुल रजाक पुत्र खादेर
								2	वाइ एम अब्दुल खादेर, मदीना मंजिल
								3	अब्दुल रहीमन एन एम पुत्र मोइदीन कुटटी
				98/12B	98/20	निजी	बाग	85	वाइ मुहम्मद शरीफ पुत्र अब्दुल्ला, वाइ एम
				98/13B	98/21	निजी	बाग	19	वाइ एम अब्दुल्ला पुत्र एन एम मुहम्मद
				65/6A	65/10	निजी	बाग	221	हुसैन के पुत्र अब्दुल्ला कुन्ही
				65/7	65/11	निजी	बाग	386	सचिव, इरियाल पालथी मस्जिद
				65/8	65/12	निजी	बाग	19	मुहम्मद
				66/12	66/18	निजी	बाग	32	अब्बास
				66/14	66/19	निजी	बाग	91	के एम मुहम्मद हाजी
				66/16	66/20	निजी	बाग	261	1 यूसूफ एवं ब्रदर्स
								2	रजिया पुत्री ए के अब्दुल्ला
				76/3A2A	76/7	सरकारी	पोरम्बो क	280	पी डब्ल्यू सड़क
				76/3A2B	76/8	निजी	नम	227	ए के ब्रदर्स
				27/2B	27/5	निजी	बाग	28	श्री महाविष्णु मंदिर, कावुगोली
				113/3A	113/5	सरकारी	बाग	10	डारेक्टर, सी पी सी आर आइ कुदलू
				76/2	76/6	सरकारी	पोरम्बो क	100	(थाडू) सचिव मोगराल पुथुर, ग्राम पंचायत
			4. कासारगोद	126/2A	126/10	निजी	शुष्क	212.14	1 पुन्दालिका भक्त
								2	पी अहमद
				126/3	126/12	निजी	शुष्क	94.29	1 रविन्द्रनाथ भक्त
				150/2	150/12	निजी	शुष्क	166.85	1 अब्दुल रहमान एवं अन्य
				150/4	150/13	निजी	शुष्क	299.17	1 अब्दुल रहमान एवं अन्य
				150/5	150/14	निजी	शुष्क	325.75	1 एम ए मुहम्मद
								2	पी बी अब्दुल रजाक
								3	डॉ. नाम अफजल केयरवैल हॉस्पिटल
				150/5B	150/15	निजी	शुष्क	186	1 टी पी आइशा पत्नी सी अब्दुला
								2	डॉ. नाम अफजल केयरवैल हॉस्पिटल
				150/1	150/11	निजी	शुष्क	243.79	कान्फीडेंट ग्रुप
				94/1A	94/6	निजी	बाग	350	1 सी टी मुस्तफा एवं अन्य
								2	एन अब्दुला के एम अब्दुला
				96/3	96/9	निजी	बाग	600	के एस संतोष शेट्टी, पुत्र शिवराम शेट्टी, सहाना, अश्विनी नगर
				96/4B	96/10	निजी	बाग	1136	1 इब्राहम
								2	अब्दुल रजाक पुत्र खादेर
								3	सी आइ अब्दुल्ला कुन्ही एवं अन्य, मालाबार गोल्ड
				96/7	96/7C	निजी	बाग	297	मैनेजिंग डारेक्टर, मालाबार गोल्ड एवं डाएमण्ड
				107/1A	107/8	निजी	शुष्क	575	वेकटारामा मंदिर
				107/1B	107/9	सरकारी	पोरम्बो	20	स्टेट सीड फार्म

				111/1A	111/10	सरकारी	शुष्क	136		केरला फायर एवं रेसक्यू विभाग
				111/2A	111/12	निजी	बाग	45	1	बाबू एवं अन्य
									2	बलराज
				111/3	111/13	निजी	बाग	20		डॉ बाल गोपालन एवं अन्य
				111/4	111/14	निजी	बाग	10		अब्दुल खादेर
				111/6	111/15	निजी	बाग	4		संता पत्नी गाविंदाराज माल्या
				123/8	123/18	निजी	शुष्क	81	1	भास्कर राव पुत्र पुट्टाया
									2	सी ए नफीसा एवं अन्य
				123/9A	123/19	निजी	बाग	190	1	बीपाथुम्मा, पत्नी अमू एवं अन्य
				123/9B	123/20	निजी	बाग	245		अब्दुल कुनहह पुत्र अब्दुल खादेर, शबीना मंजिल, उदमा,
				123/10	123/21	निजी	शुष्क	381		अब्दुला कुन्ही पुत्र अब्दुल खादेर, शबीना मंजिल, उदमा
				156/8	156/14	निजी	शुष्क	110	1	शकुलता माल्या
									2	मुत्सिपल सचिव, कासरगोद
				156/9A	156/15	निजी	शुष्क	138	1	मोनू हाजी, अरीकादी,
									2	मुहम्मद कुन्ही खादेर एवं नफीसाथ मिश्रिया
				156/9B	156/16	निजी	शुष्क	142		शकुलता माल्या
				156/10A	156/17	निजी	शुष्क	24		जगन्नाथ शेनोए
				156/10B	156/18	निजी	शुष्क	3		मुत्सिपल सचिव, कासरगोद
				156/11	156/19	निजी	शुष्क	51	1	वरादराजा शेनोए
									2	लता प्रभू एवं अन्य
									3	विश्वनाथ शेनोए
				156/12	156/20	निजी	शुष्क	572	1	वरादराजा शेनोए
									2	सचेन्द्रा शेनोए
									3	रत्नाकर शेनोए
				177/1B	177/4	निजी	शुष्क	6		के बाबू पुत्र कारागा चेत्तियार स्वा
				177/2A	177/5	निजी	बाग	190	1	सुशीला पत्नी एम एच मणियाणी, गणेश प्रसाद
									2	नारायणी पत्नी कुन्हाम्बू (स्व) अनंगूर
				177/2B	177/7	निजी	बाग	825	1	टी एम सेफिया पत्नी अब्दुल खादेर हाजी
									2	मंसूर सी टी एम
									3	संदेश पुत्र सीता
									4	के एस सैनुदीन हाजी
					177/6	निजी	बाग	1039	1	जामा अथ पाली, इरुथुम्कादावु
									2	चन्द्रकला पत्नी कोरगा
									3	सी ए मुहम्मद पुत्र अब्दुल रहीमन एवं 2 अन्य
									4	विनोद राज पुत्र मणा मास्टर एवं अन्य
				177/3	177/8	निजी	शुष्क	95	1	गिरिजा, पत्नी संजीवा के
									2	जानकी पत्नी चन्दु (स्व)
				178	178/3	सरकारी	पोरम्बोक	1310		पोरम्बोक सरकार
				181/1	181/7	निजी	शुष्क	87		श्रीमति जरीना पत्नी इब्राहम खलील (स्व.) तलांगरा
					181/8	निजी	शुष्क	70		श्रीमति जरीना पत्नी इब्राहम खलील (स्व.) तलांगरा
					181/3	निजी	शुष्क	555	1	मोइदीन कुन्ही, पुत्र शेखुदीन कोलीकरा
									2	डॉ थलांगरा नूरुदीन एवं अन्य
					181/9	निजी	शुष्क	35		श्रीमति जरीना एवं अन्य
					181/5	निजी	शुष्क	263		येशवंत कामथ एवं अन्य
					181/6	निजी	शुष्क	850		मुहम्मद शफी एवं अन्य
					181/4	निजी	शुष्क	855		बशीर एवं अन्य जैन मोटर्स
				181/2	181/10	निजी	शुष्क	49	1	टी एम लक्ष्मी पत्नी नारायण
					181/11	निजी	शुष्क	132	2	के भास्कर नायर पुत्र करुणकरण
				195/1	195/1	सरकारी	पोरम्बोक	100		पी डब्ल्यू डी सड़क

				195/2	195/3	निजी	शुष्क	38		ओ ए हुसैनार, गुरुकाल हाउस आनगर
				205	205/10	निजी	शुष्क	779	1	माजूनाथ शेनोए
									2	उमेश शेनोए पुत्र श्रीधर शेनोए (संव.) एवं अन्य
				209	209/2	सरकारी	पोरम्बोक	2300		एल एफ रोड
				232/1	232/8	निजी	शुष्क	189	1	अब्दुल रहीमन
									2	मुहम्मद पी ए
									3	मुहम्मद
									4	एन ए मुहम्मद अली
									5	अब्दुल रहीमन
									6	अब्बास पुत्र अब्दुल्ला हाजी
									7	अब्दुल रहफ पुत्र कुन्हामद हाजी एवं अन्य
					232/7	निजी	शुष्क	161		डिपार्टमेंट ऑफ एवं टेलिग्राफस
				239/1	239/4	सरकारी	शुष्क	986		सरकारी कॉलेज, कासरगोद कोलिगेट एजुकेशन डिपार्टमेंट
				252/1	252/10	निजी	शुष्क	189	1	एम राघव
									2	एम नारायणन भट एडवोकेट
									3	ए एम हसनार एवं अन्य
									4	सुमती पत्नी चन्द्रशेखर वीरा कॉम्प्लेक्स
				252/2	252/11	निजी	शुष्क	186		डॉ एस वी राजगोपाल शर्मा, पुत्र देवकी अम्मा, विदयानगर
				252/5	252/12	निजी	शुष्क	44		एस वी राजगोपाल शर्मा एवं एस वी उदय शंकर भट, विदयानगर
				252/6	252/13	निजी	शुष्क	230		एस वी राजगोपाल शर्मा एवं एस वी उदय शंकर भट, विदयानगर
				252/7	252/14	निजी	शुष्क	1		एस वी राजगोपाल शर्मा एवं एस वी उदय शंकर भट, विदयानगर
				253	253/2	निजी	शुष्क	137	1	प्रकाश एवं हरीश पुत्र राम करता बी सी रोड
									2	रामणी पत्नी उमेश राव (राव)
									3	अहमद पुत्र मोइदीनकुन्ही, विपरीत सरकारी कॉलेज
									4	अब्दुला पुत्र मोइदीनकुन्ही
									5	एम राघव (रिटायर्ड इंजिनियर) कृष्णा हॉस्पिटल
				254/1	254/1	सरकारी	पोरम्बोक	40		केरला के जल अधिकारी
				254/2	254/4	निजी	शुष्क	215	1	बीपाथुम्मा, पुत्री सी ए मोइदीनकुन्ही
									2	केरला के जल अधिकारी
									3	नौशाद जामा मस्जिद कमिटी
				254/3	254/5	सरकारी	पोरम्बोक	125		केरला के जल अधिकारी
					254/6	निजी	शुष्क	111	1	बद्रदीन
									2	डॉ दिनेश कुमार पुत्र कुन्हाकेलू नाम्बियर
					254/7	निजी	शुष्क	2		डॉ दिनेश कुमार पुत्र कुन्हाकेलू नाम्बियर
				255/1	255/7	निजी	शुष्क	29		हरीश पुत्र कृष्णन नायर, परवाणा दुक्कम
					255/8	निजी	शुष्क	267		सचिव कासरगोद कोरओपरेटिव मारकेटिंग एवं प्रोसेसिंग सोसाइटी
				258/1	258/3	निजी	शुष्क	280	1	सी ए अबूबैकर
									2	सी टी मारियाम्बी, पत्नी एम एस शाली
									3	टी ए अब्दुलखादेर एवं बी के इब्राहिम
									4	सी टी अब्दुल मंसूर, पुत्र अब्बास कुट्टी
				258/2	258/4	निजी	शुष्क	75		भारत स्क्रॉट एवं गाइडस
				259/1	259/11	निजी	शुष्क	687		महेश, कानयूर इन्टरप्राइजिस

			259/2	259/12	निजी	शुष्क	156		एम के अब्दुल खादेर एवं एम कुन्हाम्
			259/3	259/13	निजी	शुष्क	1		सरोजिनी पत्नी नंदन स्वा
				259/14	निजी	शुष्क	1		सरोजिनी पत्नी नंदन स्वा
			259/4	259/15	निजी	शुष्क	192	1	कुनही कानन, आकाश ऑडिटोरियम कान्हागाद
								2	अब्दुल रजाक पुत्र अब्दुल रहमान, नैमारमूला
								3	ए एच इब्राहम पुत्र अब्दुल्ला हाजी, छुदावलपिल
			259/5	259/16	निजी	शुष्क	153		सी ए अबूबैकर, पुत्र अब्दुल हाजी छुदावलपिल
			111/1A2	111/11	निजी	शुष्क	15	1	बाबू
								2	पुंदालिका शेनोए एवं अन्य
			98/6	98/9	निजी	शुष्क	8		के वी कुनहीकानन, बिन्दु ज्वैलरी
			123/16	123/22	सरकारी	पोरम्बोक	250		सचिव कासरगोद मुन्सिपालटी
			152/2	152/3	निजी	शुष्क	48		श्री अययपा क्षेत्र, नुलिपादी
			183/1	183/5	निजी	शुष्क	10		के विजय कुमार एवं अन्य
			183/2A	183/6	निजी	शुष्क	20	1	के विजय कुमार
								2	हरीनाक्षी एवं 3 अन्य
								3	श्रीमति कातिमा
			232/3	232/9	निजी	शुष्क	60		बीमाथुम्मा एवं अन्य
			232/4	232/10	निजी	शुष्क	19		बीमाथुम्मा
			232/5	232/11	निजी	शुष्क	16		सचिव मुन्सीपालटी कासरगोद
			239/2	239/5	सरकारी	शुष्क	111		सरकारी कॉलेज, कासरगोद कोलिगेट एजुकेशन डिपार्टमेंट
			239/3	239/6	सरकारी	शुष्क	141	1	डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमेशन काउंसिल
								2	सरकारी कॉलेज, कासरगोद कोलिगेट एजुकेशन डिपार्टमेंट
		5. छेंगाला	43/1	43/9	निजी	शुष्क	23.99	1	एम सी अब्दुलखादेर, पुत्र मुहम्मद के एम सी होम, 4 मिल, चेंगाला
								2	फैसी उस्ताद, जाहीरा मंजिल, 4 मिल चेंगाला पी ओ
								3	बीफातीमा पत्नी मम्मू थोटटाथिल (हाउस) संतोष नगर, चेंगाला
								4	कलील, मोडर्न वूड मवर्स संतोष नगर चेंगाला पी ओ
			43/7	43/10	निजी	शुष्क	6.26		अब्दुल खादेर पुत्र एम ए अहमद कुन्ही आस्मा मंजिल, चेंगाला
			44/16	44/20	निजी	शुष्क	1.41		बी ए यूसूफ पुत्र सी अब्दुलखादेर हाजी (स्व.)
			2/1	2/12	निजी	शुष्क	21	1	टी एम इब्राहम पुत्र मामुन्ही नैमारमूला विदयानगर पी ओ
								2	अशरफ पुत्र इब्राहम प्रोविजन स्टोर, नैमारमूला एवं अन्य
			2/2	2/13	निजी	शुष्क	16		कोलीकादाबू अबूबैकर, नैमारमूला एवं अन्य
			2/3	2/14	निजी	शुष्क	17		बीफातीमा पत्नी स्व. अब्दुल, नैमारमूला रहमथ बिल्डिंग, विदयानगर पी ओ
			2/4	2/15	निजी	शुष्क	21		सी के मोइदीनकुन्ही, कालपका हाउस, नैमारमूला विदयानगर पी ओ
			2/5	2/16	निजी	शुष्क	10	1	मारियाम्मा पत्नी स्व.इब्राहम, एन ए हाउस नैमारमूला
								2	बी एम अहमद हाजी, पुत्र ममून्ही हाजी, इमालम हाउस एवं अन्य
				2/17	निजी	शुष्क	110	1	मारियाम्मा पत्नी स्व.इब्राहम, एन ए हाउस नैमारमूला
								2	बी एम अहमद हाजी, पुत्र ममून्ही हाजी, इमालम हाउस एवं अन्य
			2/6	2/18	निजी	शुष्क	27		के एम मुहम्मद एवं पी वी

									अहमद नैमारमूला, विदयानगर पी ओ
			2/7B1	2/19	निजी	शुष्क	106		पी वी अहमद नैमारमूला, विदयानगर पी ओ
			2/7C	2/20	निजी	शुष्क	54		एन ए मुहम्मद साली, पुत्र एन ए अब्दुल्ला हाजी, रहीमन मंजिल, नैमारमूला, विदयानगर पी ओ
			2/11	2/21	निजी	शुष्क	139		असैनार हाजी, पुत्र अब्दुल खादेर, मूलाइल हाउस, पनलम
			3/1A	3/18	निजी	शुष्क	120		के एच कुन्हाली पुत्र खादेर हुसैन चेरुर पी ओ, नैमारमूला एवं अन्य
			3/1B	3/12	निजी	शुष्क	18		के एच कुन्हाली पुत्र खादेर हुसैन चेरुर पी ओ, नैमारमूला एवं अन्य
			3/2	3/13	निजी	शुष्क	48		के एच कुन्हाली पुत्र खादेर हुसैन चेरुर पी ओ, नैमारमूला एवं अन्य
			3/9	3/14	निजी	बाग	168		पी के हसन पुत्र स्व खादेर हाजी, मूलाइल हाउस, चेरुर पी ओ एवं अन्य
				3/15	निजी	बाग	16		पी के हसन पुत्र स्व खादेर हाजी, मूलाइल हाउस, चेरुर पी ओ एवं अन्य
			3/10	3/16	निजी	शुष्क	170		कुन्नील अब्दुल खादेर पुत्र अब्दुल रहीमन कुन्नील हाउस, चेरुर पी ओ एवं अन्य
			3/11	3/19	निजी	शुष्क	35		कुन्नील अब्दुल खादेर पुत्र अब्दुल रहीमन कुन्नील हाउस, चेरुर पी ओ एवं अन्य
				3/20	निजी	शुष्क	15		कुन्नील अब्दुल खादेर पुत्र अब्दुल रहीमन कुन्नील हाउस, चेरुर पी ओ एवं अन्य
			6/1	6/16	निजी	शुष्क	40		मुहम्मद पनालम हाउस, नियर मोइदीन, जामा मस्जिद
			6/2A	6/11	निजी	शुष्क	303	1	उस्मान पुत्र अमू हाजी, कुनिल हाउस एवं अन्य
				6/12	निजी	शुष्क	18	2	इब्राहिम हाजी, पनलम हाउस
			6/2B	6/13	निजी	शुष्क	28		समीरा पत्नी मोइदीनकुन्ही इमाला हाउस, आलमपादी पी ओ एवं अन्य
			6/4A	6/14	निजी	शुष्क	50		मुहम्मद कुन्ही पुत्र अब्दुल खादेर पनलम हाउस चेरुर पी ओ एवं अन्य
			6/4B	6/15	निजी	शुष्क	240		मुहम्मद इस्माइल हाजी, पुत्र मुहम्मद पनलम हाउस, चेरुर
			8/1	8/15	निजी	शुष्क	59		के ए बशीर पुत्र अहमद हाजी, दायसलम हाउस, पनलम
			39/1	39/6	निजी	शुष्क	692	1	अहमद पुत्र मुहम्मद मुचादुक्का हाउस, बादर नागर, चेंगला पी ओ एवं अन्य
								2	मुहम्मद पुत्र अब्दुल्ला, मंचादुक्का हाउस
								3	शफी पुत्र अब्बास हाजी, मदनूर मंजिल एम डी नागर थंलांगरा
			39/2	39/7	निजी	शुष्क	754	1	मारमोइदीन मस्जिद, संतोष नगर
								2	अबूबैकर, आलमपादी एवं अन्य
			39/5	39/8	सरकारी	पोरम्बोक	30		सचिव चेंगला ग्राम पंचायत
			160/7	160/10	निजी	शुष्क	147		इशाक पुत्र इब्राहिम, स्टार नगर, बेविनज
				160/11	निजी	शुष्क	72	1	मंसूरा पत्नी नौशाद स्टार नगर
								2	अबूबैकर, पुत्र अब्दुल्ला, स्टार नगर
								3	सुलू पत्नी, रवि, कोलारामूला, स्टार नगर
								4	अब्दुल रहीमन पुत्र कुन्हामद

									कोलारमूला, स्टार नगर
								5	मुहम्मद कुन्ही पुत्र अब्दुल खादेर स्टार नगर एवं अन्य
			161	161/2	निजी	शुष्क	1545	1	मारियन्ना सी एम हाउस, स्टार नगर
								2	ममीदकुन्ही पुत्र अबूबैकर स्टार नगर एवं अन्य
			166/1	166/3	निजी	शुष्क	5580		चन्द्रशेखरण नाम्बियर पुत्र मलिंगा नायर, कोयागनम एवं अन्य
			173/1A1	173/6	सरकारी	पोरम्बोक	28		ए डब्ल्यू
			174/2A	174/9	निजी	शुष्क	29		अहमद पुत्र मुहम्मद एवं अन्य
			174/3A	174/10	निजी	बाग	4		एम टी मुहम्मद कुन्ही पुत्र अब्दुल रहीमन एवं अन्य
			174/3C	174/11	निजी	बाग	300		मुहम्मदीनकुन्ही, पुत्र मोइदु एवं अन्य
			174/4B	174/12	निजी	बाग	10		उमालिम्मा एवं 5 अन्य बेविंजे
			48/1	48/7	निजी	बाग	86		अब्दुल खादेर हाजी, महाबा, पनाकूलम, चेंगला
			48/4	48/9	निजी	बाग	248		एन ए अब्दुल्ला पुत्र अब्दुलरहमान मैमूना मंजिल पनाकुलम
			48/6	48/8	निजी	बाग	148		इब्राहम, पनाकुलम एवं अन्य
			58/1	58/4	निजी	शुष्क	100		ए एम मुहम्मद पुत्र अब्दुल खादेर, एरियल हाउस चेंगला
			58/2A	58/5	निजी	शुष्क	98		सी कुन्हामद हाजी बोदरिया मंजिल एवं अन्य
			58/2B1	58/6	निजी	शुष्क	220		यूसुफ बाद्री एवं अन्य
			58/3	58/7	सरकारी	पोरम्बोक	80		पोरम्बोक
				58/8	सरकारी	पोरम्बोक	35		पोरम्बोक
			106/1A	106/10	निजी	शुष्क	59	1	सचिव, मुबारक मस्जिद, इन्दिरा नगर चेंगला पी ओ
								2	एम इब्राहम पुत्र मोइदीन कुट्टी, थलाकंदम हाउस, प्रेयम्बालादेव, पेटुम्बाला पी ओ
			106/1B	106/11	निजी	शुष्क	81	1	मैहमूद पुत्र अब्दुल फेजमिना मंजिल, इन्दिरा नगर, चेंगला पी ओ
								2	मुहम्मद पुत्र अब्दुल ब्रदर्स कम्पाउंड, इन्दिरा नगर चेंगला पी ओ
								3	पटेल खलील, इन्दिरा नागर, चेंगला पी ओ
			106/2	106/12	निजी	शुष्क	342	1	मामू पुत्र मोइदी कुन्ही, कानियादुक्का हाउस, इन्दिरा नगर, चेंगला पी ओ
								2	आइशा पत्नी अब्दुल खादेर (स्व.), कानियादुक्का हाउस, इन्दिरा नगर चेंगला पी ओ
								3	खादीजा पत्नी स्व. इब्राहम, कानियादुक्का कम्पाउंड, इन्दिरा नगर, चेंगला पी ओ एवं अन्य
			106/3	106/13	निजी	बाग	111		मुहम्मद हबीदुल्ला, पुत्र के पुत्र अब्दुल, हबीब मनूर, 5 वॉ मिल चेंगला पी ओ
			106/4	106/14	निजी	बाग	104	1	आइ एस हबीब एवं नबीसा, शाहन्स मंजिल 5 वॉ मिल चेंगला पी ओ
			107/1	107/9	निजी	शुष्क	97	1	फाज़लर रहीमन के एम पुत्र के एम अब्दुल कुन्ही, 5 वॉ मिल चेंगला पी ओ
								2	मुहम्मद हाजी
			107/2	107/10	निजी	बाग	86		के कुन्हाली पुत्र मुहम्मद एवं अन्य
			111/1A1	111/6	निजी	शुष्क	72		थाहीरा मुहम्मद पत्नी माम्मद नर्गिश विला, चेंगला
			111/1B	111/7	निजी	शुष्क	4		ए एम मुहम्मद एवं ए एम अशरफ एवं अन्य
			111/2	111/8	निजी	शुष्क	25		अब्दुल रहीमन पुत्र के मुहम्मद

									कुद्रोली चेरकला
			111/4B	111/10	निजी	शुष्क	4		सचिव चेंगला ग्राम पंचायत एस्जिजसटिंग रोड
			111/4A	111/9	निजी	शुष्क	10		सी मुहम्मद पुत्र सी अब्दुला चेंगला
			128/4	128/6	निजी	शुष्क	562		ए अब्दुल रशिद मैनेजिंग डारेक्टर, खजा इस्लेण्ड
			113/2A	113/5	निजी	बाग	47		फातीमा पत्नी कुन्हाली स्व 5 वां मिल कानियादुक्का हाउस, चेंगला पी ओ
			174/6B	174/13	निजी	बाग	130		अब्दुल रहीमन एवं अन्य
			174/7	174/14	निजी	बाग	25		दिदिपा अहमद बेविजे एवं अन्य
			174/8	174/15	निजी	बाग	140		कुन्हामद हाजी, बेविजे एवं अन्य
			175/2	175/8	सरकारी	पोरम्बोक	40		सचिव चेंगला ग्राम पंचायत, थोडू पोरम्बोक
			175/3A	175/9	निजी	बाग	965	1	सी एच अब्दुल खादेर हाजी, पुत्र चोपाली अलिकुन्ही
								2	मारियाबी पत्नी अब्दुल रहीमन
								3	इब्राहिम पुत्र अन्दुन्ही एवं अन्य
			179/3A	179/6	निजी	बाग	266		मामद पुत्र बंकट अब्दुला एवं अन्य
			179/4A	179/7	निजी	शुष्क	36		उमाली पुत्री अब्दुल रहीमन, बेविजे
			186/4	186/13	निजी	बाग	420		इब्राहिम पुत्र अन्दु एवं अन्य
			186/10B	186/14	निजी	शुष्क	30		उमालिम्मा एवं 5 अन्य बेविजे
			186/1B	186/11	निजी	बाग	2		एम टी अहमदली, पुत्र एम आर अब्दुल रहीमन एवं अन्य
			186/3B	186/16	निजी	शुष्क	350	1	एम टी अहमदली, पुत्र एम आर अब्दुल रहीमन एवं अन्य
								2	एम टी मूसा पुत्र एम आर अब्दुल रहीमन
			190/1	190/5	निजी	शुष्क	985	1	टी एम मुहम्मद कुन्ही पुत्र अब्दुल्ला कुनही न्यू बेविन्जे, थेकिल फेरी एवं अन्य
			190/2	190/6	निजी	शुष्क	829	1	मारियाम्मा पुत्री मुहम्मद
								2	क वी एस अब्दुल्ला, पुत्र अगलापादी अहमद एवं अन्य
			190/3	190/7	निजी	शुष्क	1459		वोमाजा मामद बेविनजे एवं अन्य
			190/4	190/8	निजी	शुष्क	2601		टी एम मुनीर पुत्र अब्दुलाकुनही एवं अन्य
			206/1A	206/7	निजी	शुष्क	1485		चन्द्र कुट्टी नायर, कुन्दादुका, चेंगला पी ओ एवं अन्य
				206/8	निजी	शुष्क	30		चन्द्रकुट्टी नायर, कुदा दुक्का, चेंगला पी ओ एवं अन्य
			206/1B	206/9	निजी	शुष्क	214		अब्दुल रहीमन एवं अन्य
			214/1A3	214/10	निजी	शुष्क	477	1	मुहम्मद शफी पी एम
								2	अमू पीत्र पी के अब्दुला
								3	निजर एवं अन्य
			214/1B	214/8	निजी	बाग	100	1	मुहम्मद हाजी
								2	कोवल मुहम्मद, कोवल हाउस, थेकिल पी ओ एवं अन्य
			214/3	214/9	निजी	शुष्क	900	1	के कुन्हाली हाजी एवं नबीसा
								2	मुहम्मद शुफीक पुत्र कुन्हामू हाजी
								3	अबूबैकर पुत्र मामद एवं अन्य
			203/1	203/2	निजी	शुष्क	750		कृष्णन पुत्र कुन्हाम्बू नायर, कुन्दादुक्का एवं अन्य
		6. मुथ्थाहोदी	283/5	283/7	निजी	शुष्क	695.84	1	यू ए हनीफा, पुत्र अब्दुल्ला
								2	यू ए अबूबैकर पुत्र अब्दुल्ला
								3	हमीद मुहम्मद
								4	अब्बास सी एवं अन्य अलाम्पादी
			283/6	283/8	निजी	शुष्क	27.21		आइशा पत्नी अब्दुल रहीमन के ऐ एवं अन्य
			284/1	284/4	निजी	शुष्क	68.54		के ए अब्दुल मुनीर एवं अन्य
			284/3	284/5	निजी	शुष्क	267.37		पी ए मुहम्मद हाजी पुत्र

									अब्दुल्ला हाजी, संतोष नागर एवं अन्य
			285/5D	285/6	निजी	शुष्क	180.76		अहमद चेंगाला एवं अन्य
			385	385/2	निजी	बाग	634.07		अब्दुल खादेर, हाजी, मनागोदे चेंगाला एवं अन्य
			386/4A	386/7	निजी	बाग	236.49		अब्दुलामीद के के पुत्र के ऐ कुन्हाली, इन्दिरा नागर, पी ओ चेंगारा, एवं अन्य
			386/4B	386/9	निजी	बाग	99.34		बी के महीन (एडवोकेट) इन्दिरा नागर, चेंगाला पी ओ
			287/1	287/8	निजी	शुष्क	120.57		बी के महीन (एडवोकेट) इन्दिरा नागर, चेंगाला पी ओ
			287/4A	287/9	निजी	बाग	32.03	1	शीबा
								2	मुहम्मद शफी
								3	इब्राहम
								4	जाबर
								5	बशीर हाजी एवं अन्य (टिम्बर मरचेनट)
			207/1D	207/4	निजी	शुष्क	45.8		सचिव, सी पी एम ऑफिस (ए के जी मण्डीराम), कासरगोद
			211/3	211/9	निजी	शुष्क	6.55		एन ए मुहम्मद पुत्र अब्दुल रहीमन नैमारमूला
			211/2	211/7	निजी	शुष्क	14.94		टाउन बासर जामा मस्जिद नैमारमूला
			211/4	211/10	सरकारी	पोरम्बोक	6.02		पोरम्बोक पी डब्ल्यू डी
			211/6	211/11	निजी	शुष्क	65.11		सी ए बीफातीमा, पत्नी एन ए मोइदीनकुन्ही हाजी एवं अन्य
			265/3B1	265/11	निजी	शुष्क	52.82		पी पी इब्राहम पुत्र पोकर हाजी, नैमारमूला, विदयानगर पी ओ एवं अन्य
			265/4	265/12	निजी	शुष्क	84.31		इ ए मुहम्मद पुत्र इ अब्दुल रहीमन, नैमारमूला एवं अन्य
			265/9	265/13	निजी	शुष्क	13.62		ाकीर पुत्र पी बी अबूबैकर, नैमारमूला
			265/10	265/14	निजी	शुष्क	37.47		जाकीर पुत्र अबूबैकर नैमारमूला
			266/3A	266/5	निजी	शुष्क	104.32	1	पी बी अहमद पुत्र बीरन
								2	जाकीर पुत्र अबूबैकर नैमारमूला
								3	नबीसा पत्नी नेकरू अबूबैकर नैमारमूला
			210/6	210/10	निजी	शुष्क	31	1	इब्राहम अब्बास एवं अन्य, चिन्डुन्स ऑफ मोइदीन कुन्ही हाजी, एम के एच कम्पाउंड
								2	नैमारमूला, विदयानगर पी ओ
								3	एम इब्राहम पुत्र मोइदीन कुन्ही हाजी, फातीमा मंजिल, एम के एच कम्पाउंड, नैमारमूला, विदयानगर
			210/7A	210/11	निजी	शुष्क	9		टाउन बासर जामा मस्जिद नैमारमूला
			210/7B	210/12	निजी	शुष्क	43		टाउन बासर जामा मस्जिद नैमारमूला
			211/1	211/12	निजी	शुष्क	1		टाउन बासर जामा मस्जिद नैमारमूला
			285/2	285/7	निजी	शुष्क	38		रुखिया एवं अन्य, पुत्री अब्दुल्ला हाजी, सुलिया
			386/5	386/10	निजी	बाग	205	1	के एम मुहम्मद हाजी, पुत्र अब्दुल्ला, करियादुन (हाउस) मुटटाथोदी
								2	एम ए मुहम्मद पुत्र एम पी अब्दुल्ला, एम पी हाउस, पी ओ चंगला एवं अन्य
			282	282/3	निजी	शुष्क	18		मुहम्मद पुत्र उम्बू, नैमारमूला
			382	382/3	निजी	शुष्क	19		मुहम्मद पी एम एवं अन्य पी एम महमूद मंजिल इरियापादी, आलमपादी पी ओ
			387	387/4	निजी	शुष्क	49	1	अनीशा मुजीब रहमान, पुत्र कुन्हाली, मंगद पी ओ पी एच सी चेंगाला
								2	सी एम अब्दुलखादेर, सी एम काम्पलेक्स, पी डब्ल्यू

				387	387/5	निजी	शुष्क	11	कॉन्ट्रैक्टर पी एच सी चेंगाला, पब्लिक, हेल्थ विभाग
		2. होसदुरग	1. पनायल	73/2	73/4	निजी	शुष्क	65	एम अब्दुल्ला, एम के एच कम्पाउंड, नयामामूला विदयानगर (पी ओ)
				73/3	73/5	निजी	शुष्क	63	एम अब्दुल्ला, एम के एच कम्पाउंड, नयामामूला विदयानगर (पी ओ)
				161/3	161/5	निजी	शुष्क	69	के रविन्द्रगन नायर, सुपर्णिका, पेरियाटादुकम
				169/4	169/18	निजी	शुष्क	433	प्रभाकरण एम पुत्र संतमा मैकान हाउस, पनायल पी ओ, बेकल विया.
				193/1	193/6	निजी	बाग	342	1 सी पी फातीमा एवं पट्टून्ही, पुत्री अब्दुल रहीमण, रशिद मंजिल, चेरुम्बा
									2 रविया, सी एच पत्नी अहमदली पी, मंडल
									3 सी एच अबूबैकर हाजी, एवं सैनबी पुत्र अब्बास अमरिय हाउस, चेरुम्बा, पनायल गांव
				193/5B	193/7	निजी	शुष्क	62	हरीश के ए पुत्र अब्दुल्ला, हाजी नगर, कुनिया पनायल गांव
				193/5C	193/8	निजी	शुष्क	57	के मुहम्मद कुन्ही, पुत्र अब्दुल्ला, जरीना मंजिल, हाजी नगर, मेलेकुनिया
				201/1B	201/6	निजी	शुष्क	56	1 सी के अब्दुल साधर, पुत्र असैनार, पेरियाटादुकम
									2 सी एच अबूबैकर हाजी, पुत्र कलानाद अब्बास, चेरुम्बा, पनायल गांव
									3 सी एच मोइदीनकुन्ही, पेरियाटादुकम, निजी सड़क
									4 एम अब्दुल रहीमन पुत्र चेरुम्बा मुहम्मद रियाना विला, पेरियाटादुकम
				201/5	201/7	निजी	शुष्क	90	1 सी के कुन्हाब्दुल्ला पुत्र असैनार, पेरियाटादुकम, पनायल गांव
									2 सी के अब्दुल साधर, पुत्र असैनार पेरियाटादुकम
			2. पीलीकोदे	70/2A2	70/8	सरकारी	शुष्क	4	ए डब्ल्यू भूमि (राजस्व)
				204/5D	204/20	निजी	बाग	353	बालकृष्णन के पुत्र कुन्हाम्बु, बालकृष्णन निवास, पादुवलम, पी ओ पिलिकोड
				204/5E	204/21	निजी	बाग	310	1 एम थाम्बम, पुत्र रमण, मीथाले वीदु, पादुवलम, पिलिकोड
									2 एम अप्पूकोटठन पुत्र रमण, मिथाले, वीदु, पादुवलम,
									3 गोपालन एम वी
				204/5F	204/22	निजी	बाग	366	1 सुरेश पट्टाथी एच/ओ दीपा के, पादुवलम पिलिकोड
									2 के नारायणी पत्नी (एल) कुमारणन नायर, कालथ, पादुवलम, पिलिकोड
				204/5G	204/23	निजी	बाग	195	के एम नारायणी पुत्री पी पी कुन्हाम्बु (स्व.) पादुवलम, पिलिकोड
					204/29	सरकारी	बाग	176	ए डब्ल्यू भूमि (राजस्व)
				204/5H	204/24	निजी	बाग	287	के एम नारायणी पुत्री पी पी कुन्हाम्बु (स्व.) पादुवलम, पिलिकोड
				204/6A	204/25	निजी	बाग	112	के एम नारायणी पुत्री पी पी कुन्हाम्बु (स्व.) पादुवलम, पिलिकोड
				204/6B1	204/26	सरकारी	शुष्क	77	ए डब्ल्यू भूमि (राजस्व)
				204/6F	204/27	निजी	बाग	124	के एम नारायणी पुत्री पी पी कुन्हाम्बु (स्व.) पादुवलम, पिलिकोड
				204/6H	204/28	निजी	बाग	1	पी वी अम्बू, पुत्र रमण, पथियावलाप्पिल पादुवलम, पिलिकोड पी ओ

				227/3B	227/3B	सरकारी	शुष्क	58	ए डब्ल्यू भूमि (राजस्व)
				228/1A	228/1A	सरकारी	शुष्क	189	ए डब्ल्यू भूमि (राजस्व)

[फा. सं. भारास्रा/11013/एल ए/केरल/एन एच-17/केरल कर्नाटक बार्डर से कन्नूर/3डी]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi the 24th December, 2013

S.O. 3806 (E).—Whereas by the Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways Number. S.O. 151 (E), dated the 14th January, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 17, in the stretch of land from Km 17.200 to Km.104.000 (Kasaragod Section) in District Kasaragod in the State of Kerala;

And whereas the substance of the above said notification has been published in "Mathrubhoomi", and "Malayala Manorama", both dated the 22nd February, 2013, under sub-section(3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from km 17.200 to km 104.000 of the National Highway No. 17 in District Kasaragod in the State of Kerala.

Sl. No.	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number		Type of land	Nature of land	Area (in Sqaure meters)	Name of the land owner/person interested	
				Before sub division	After sub division					
1	2	3	4	5		6	7	8	9	
1	Kasaragod	(1) Kasaragod	(1) Bangra manjeshwara	81/3B	81/11	Private	Dry	180.89	1	Gangadhara
									2	Chandrasahsa Megha Tower, Hosangadi and others.
				27/1C1A	27/3	Private	Wet	366.03	1	Ramani
									2	Janaki
									3	Kannappa
									4	Narayana
									5	Raghava , All are residing at Mithakanila , Manjeshwar and others.
				103/4A1	103/19	Private	Dry	43		Sree Sasthreshwara Temple, Vamanjur,Bangramanjeswar

							represented by Trustees.
	103/8A	103/20	Private	Dry	20		Indira , W/o Narasappayya Near Checkpost,Manjeshwar and others.
	110/1A	110/19	Private	Garden	50		Moorthy, Kadambar and others.
	111/4B	111/26	Private	Garden	295		Vijayakumar Shetty and others, Children of Narayana Shetty Near Sales Tax Check Post , Vamanjur , Manjeshwar.
	111/5A2	111/27	Private	Dry	312		Sukhalatha, D/o Shivamma , Near Sales Tax Check Post ,Vamanjur , Bangramanjeshwar.
	111/5B2	111/28	Private	Garden	203		Sugandhi, W/o (late) Shekhara,Near Sales Tax Check Post ,Manjeshwar and others.
	111/21	111/21	Govt.	Poramboku	345		Thodu, Secretary Manjeswaram Grama Panchayath.
(2) Mangalpady	281/3B	281/9	Private	Dry	243.44	1	M.M Yousaf
						2	M.A Khalid
	281/4	281/10	Govt.	Poramboku	86.21		Govt. Poramboke
	256/7	256/14	Private	Wet	1846.13	1	B.M Mohan
						2	Fareeda
						3	Khadeeja
	260/1B	260/7	Private	Dry	79.79	1	M.M Yousaf
						2	M.A Khalid
	12/3A	12/11	Private	Dry	22.48		Jayaram Shetty and others
	10/1	10/2	Private	Dry	3043.15	1	Anugraha
						2	Abdul Rahiman
						3	K.M Moosa and others
						4	Abdul Rahiman
						5	Jayaram Shetty
	9/1	9/8	Private	Dry	503.87	1	Balakrishna Irmiraya
						2	Mohammad Haji
						3	Fakruddin Iqubal Khalandar
	9/4	9/10	Private	Dry	58.40	1	Yousaf S/o Pakrunhi,
						2	Zainaba W/o Mohammed
	284/1B	284/19	Private	Dry	73.77		Aysha W/o Mohammed
	284/8	284/20	Private	Garden	179.07		Sundry D/o Bandary Shetty
	284/11B	284/21	Private	Wet	90.09		Mallangai Juma Masjid
	286/2	286/20	Private	Dry	2.82		Radha W/o Krishna Holla
	286/12	286/22	Govt.	Poramboku	20.96		Govt. Poramboke, Secretary Grama Panchayath, Mangalpady
	13	13/2	Govt.	Poramboku	436.75		Govt. Poramboke, River
	159/3A	159/15	Private	Wet	66.04		Sundry D/o Bandary Shetty
	159/3B	159/16	Private	Wet	33.43		Sundry D/o Bandary Shetty
	1/1A1	1/14	Private	Dry	107	1	Abdul Khadar, S/o Alikunhi (late) and others

						2	Ansif, S/o Moideen Noorani, Noorani Manzil
	1/2	1/15	Private	Dry	22		Haji.M.A.Abdul Khadar, S/o Moideenkunhi, Husain Villa, Nattakal House
	1/13	1/16	Private	Dry	14		Abba Haji
	6/5A1	6/13	Private	Dry	9	1	Ismail Sheik Budan, S/o Buden Rahiman, Budan Cottage, Naya Bazar
						2	Shafi, S/o Budan Rahiman
	6/6	6/14	Private	Dry	75	1	Nooruddin S/o Ahammad Fakeer (Late), Ashiq Manzil
						2	Mohammad Salim, S/o Ahammad Fakeer and others
	284/3B	284/3B	Private	Dry	185		Ayisha W/o Mohammad Haji, Mallangai
	254/2	254/7	Private	Dry	914	1	Ramesh S/o Dhooma Rama Bangera & Others
						2	Guliga Bana
						3	Purushothama S/o Dhooma Rama Bangera
						4	Sarvani W/o Sanjeeva Shetty, shetty Nilaya.
						5	Rajendra Shetty S/o Ramayya Shetty(Late)
						6	Kariya Narayana Shetty S/o Thukkrappa Shetty
						7	Moideen S/o Moosa (Late), Ashraf Manzil
	254/3	254/8	Private	Garden	50		Babu S/o Rama(Late), Muttam Gate.
	258/2	258/6	Private	Dry	5		Mallangai Juma Masjid
(3) Kudlu	12	12/10	Govt.	Garden	311.96	1	Director, CPCRI, Kudlu
		12/11	Govt.	Garden	777	2	Director, CPCRI, Kudlu
	27/2A	27/3	Govt.	Garden	862.23		Director, CPCRI, Kudlu
	27/2C	27/4	Govt.	Garden	616.91		Director, CPCRI, Kudlu
	28	28/2	Govt.	Garden	402.24		Director, CPCRI, Kudlu
	29/1A	29/4	Private	Dry	255.18		President, Noorul Huda Juma Masjid.
	29/1B1A	29/5	Private	Dry	367.44	1	Moideenkunhi
						2	Kousallya
	29/1B1B	29/6	Private	Dry	387.56	1	Mohammed Haji
						2	Abdul Sathar
						3	Mehamood
	29/1B2	29/8	Govt.	Garden	2285.25		Director, CPCRI, Kudlu
	60/3	60/5	Private	Garden	38.68		A.K Mohammed
	60/4	60/6	Private	Garden	32.98		A.K Abbas
	65/5	65/9	Private	Garden	48.73		A.K Abbas
	37/1	37/5	Private	Garden	53.34		Eriyal Juma Masjid
	37/2	37/6	Private	Dry	249.55		Mohammedkunhi, S/o Moideen
	37/4	37/7	Private	Dry	297.52	1	Mohammed Ali, S/o Hassainar
						2	Hamsa (Dera City)
						3	Hassainar

						4	Eriyal Juma Masjid
						5	A.P. Jafer
	38	38/2	Govt.	Garden	2191.52		Director, CPCRI, Kudlu
	107/1A2	107/3	Private	Garden	215		Ibrahim and Others, Kudlu
	107/1C2	107/4	Private	Garden	1200	1	Kavil Bhandara Veedu
						2	M.H Abdulla S/o Mohammed Haji
						3	S.H Hameed S/o Sulaiman Haji
						4	Ahammed, Kudlu
						5	Smt. Kunjeevi
						6	Abdul Khadar
						7	Hassinar
						8	Shivaprasad Patteri and 3 Others.
	98/11B	98/19	Private	Garden	396	1	Abdul Razak S/o Khadar
						2	Y.M Abdul Khadar, Madeena Manzil
						3	Abdul Rahiman.N.M, S/o Moideen kutty
	98/12B	98/20	Private	Garden	85		Y.A Muhammad Shereef, S/o Abdulla.Y.M
	98/13B	98/21	Private	Garden	19		Y.M Abdulla S/o N.M Muhammad.
	65/6A	65/10	Private	Garden	221		Hussain.K S/o Abdullakunhi
	65/7	65/11	Private	Garden	386		Secretary Eriyal Palathil Masjid
	65/8	65/12	Private	Garden	19		Muhammed
	66/12	66/18	Private	Garden	32		Abbas
	66/14	66/19	Private	Garden	91		K.M Muhammad Haji
	66/16	66/20	Private	Garden	261	1	Yousaf and Brothers
						2	Razia D/o A.K.Abdulla
	76/3A2A	76/7	Govt.	Poramboku	280		PWD Road
	76/3A2B	76/8	Private	Wet	227		A.K Brothers
	27/2B	27/5	Private	Garden	28		Sri.Mahavishnu Temple, Kavugoli
	113/3A	113/5	Govt.	Garden	10		Director, CPCRI, Kudlu
	76/2	76/6	Govt.	Poramboku	100		(Thodu) Secretary Mogral Puthur, Grama Panchayath
(4) Kasaragod	126/2A	126/10	Private	Dry	212.14	1	Pundalika Bhakta
						2	P.Ahammed
	126/3	126/12	Private	Dry	94.29		Ravindranatha Bhakta
	150/2	150/12	Private	Dry	166.85		Abdul Rahman & Others
	150/4	150/13	Private	Dry	299.17		Abdul Rahman & Others
	150/5	150/14	Private	Dry	325.75	1	M.A.Muhammed
						2	P.B. Abdul Razak
						3	Dr.Nam Afsal,Carewell Hospital.
	150/5B	150/15	Private	Dry	186	1	T.P. Ayisha, W/o C.Abdulla
						2	Dr.Nam Afsal,Carewell Hospital.
	150/1	150/11	Private	Dry	243.79		Confident Group
	94/1A	94/6	Private	Garden	350	1	C.T.Musthafa & Others
						2	N.Abdulla, K.M. Abdulla

				96/3	96/9	Private	Garden	600		K.S.Santhosh Shetty, S/oShivarama Shetty, Sahana, Ashwini Nagar
				96/4B	96/10	Private	Garden	1136	1	Ibrahim
									2	Abdul Razak & Others
									3	C.I.Abdulla Kunhi & Others, Malabar Gold
				96/7	96/7C	Private	Garden	297		Managing Director, Malabar Gold & Diamond.
				107/1A	107/8	Private	Dry	575		Venkataramana Temple
				107/1B	107/9	Govt.	Poramboku	20		State Seed Farm
				111/1A	111/10	Govt.	Dry	136		Kerala Fire & Rescue Dept.
				111/2A	111/12	Private	Garden	45	1	Babu & others
									2	Balaraj
				111/3	111/13	Private	Garden	20		Dr. Balagopalan & Others
				111/4	111/14	Private	Garden	10		Abdul Khadar
				111/6	111/15	Private	Garden	4		Santha W/o. Govindaraja Mallaya
				123/8	123/18	Private	Dry	81	1	Bhaskara Rao S/o. Puttayya
									2	C.A. Nafeeza & others
				123/9A	123/19	Private	Garden	190		Beepathumma, W/o.Amoo & others
				123/9B	123/20	Private	Garden	245		Abdullakunhi S/o. Abdul Khadar, Sabeena Manzil, Udmma.
				123/10	123/21	Private	Dry	381		Abdullakunhi S/o. Abdul Khadar, Sabeena Manzil, Udmma.
				156/8	156/14	Private	Dry	110	1	Shakunthala Mallaya
									2	Municipal Secretary, Kasaragod.
				156/9A	156/15	Private	Dry	138	1	Monu Haji, Arikady.
									2	Mohammed Kunhi Khadar & Nafeesath Misriya
				156/9B	156/16	Private	Dry	142		Shakunthala Mallaya
				156/10A	156/17	Private	Dry	24		Jagannatha Shenoy
				156/10B	156/18	Private	Dry	3		Municipal Secretary, Kasaragod.
				156/11	156/19	Private	Dry	51	1	Varadaraja Shenoy
									2	Latha Prabhu & others
									3	Viswanath Shenoy
				156/12	156/20	Private	Dry	572	1	Varadaraja Shenoy
									2	Sacheendra Shenoy
									3	Ratnakara Shenoy
				177/1B	177/4	Private	Dry	6		K. Babu, S/o. Koraga Chettiyar (Late)
				177/2A	177/5	Private	Garden	190	1	Susheela W/o. M.N. Maniyani , Ganesh Prasad
									2	Narayani W/o. Kunhambu (Late) Anangoor
				177/2B	177/7	Private	Garden	825	1	T.M. Sephia, W/o. Abdul Khader Haji
									2	Mansoor C.T.M.
									3	Suresh S/o Seetha
									4	K.S.Sainudeen Haji
					177/6	Private	Garden	1039	1	Jama Ath Palli, Eruthumkadavu

					2	Chandrakala, W/o Koraga
					3	C.A.Muhammed, S/o Abdul Rahiman and 2 others.
					4	Vinod Raj S/o Mana Master and Others
177/3	177/8	Private	Dry	95	1	Girija, W/o.Sanjeeva K.
					2	Janaki, W/o.Chandu (Late)
178	178/3	Govt.	Poramboku	1310		Govt.Poramboke
181/1	181/7	Private	Dry	87		Smt.Zerina, W/o Ibrahim Khaleel (late), Talangara.
	181/8	Private	Dry	70		Smt.Zerina, W/o Ibrahim Khaleel (late), Talangara.
	181/3	Private	Dry	555	1	Moideen Kunhi, S/o Sekuddin Kolikkara
					2	Dr.Thalangara,Nooruddeen and others.
	181/9	Private	Dry	35		Smt.Zereena and others.
	181/5	Private	Dry	263		Yeshwanth Kamath and others.
	181/6	Private	Dry	850		Muhammad Shafi and others.
	181/4	Private	Dry	855		Bhasheer and Others ZainMotors
181/2	181/10	Private	Dry	49	1	T.M.Laxmi, W/o Narayana
	181/11	Private	Dry	132	2	K.Bhaskaran Nair, S/o Karunakaran
195/1	195/1	Govt.	Poramboku	100		PWD Road.
195/2	195/3	Private	Dry	38		O.A Hassainar, Gurukul House, Anangoor
205	205/10	Private	Dry	779	1	Majunatha Shenoy
					2	Umesh Shenoy S/o Sreedhar Shenoy (Late) and others
209	209/2	Govt.	Poramboku	2300		L.F Road
232/1	232/8	Private	Dry	189	1	Abdul Rahiman
					2	Muhammed.P.A
					3	Muhamamed
					4	N.A Mohammed Ali
					5	Abdu Rahiman
					6	Abbas S/o Abdulla Haji
					7	Abdul Rahoof, S/o Kunhammad Haji and others.
	232/7	Private	Dry	161		Dept.of Post and Telegraphs
239/1	239/4	Govt.	Dry	986		Govt. College, Kasaragod Collegiate Education Dept.
252/1	252/10	Private	Dry	189	1	M.Raghava
					2	M.Narayana Bhat, Advocate.
					3	A.M.Hassainar and Others
					4	Sumathi, W/o Chandrashekhara, Veena Complex.
252/2	252/11	Private	Dry	186		Dr.S.V.Rajagopala Sharma , S/o Devaki Amma, Vidyanagar.
252/5	252/12	Private	Dry	44		S.V. Rajagopala Sharma and S.V Uday Shankar Bhat, Vidyanagar.
252/6	252/13	Private	Dry	230		S.V. Rajagopala Sharma and S.V Uday Shankar Bhat, Vidyanagar.

				252/7	252/14	Private	Dry	1		S.V. Rajagopala Sharma and S.V Uday Shankar Bhat ,Vidyanagar.
				253	253/2	Private	Dry	137	1	Prakash & Hareesh, S/o Rama Karanta , BC Road
									2	Ramany, W/o Umesh Rao(Late)
									3	Ahammed, S/o Moideenkunhi, Opposite Govt.College
									4	Abdulla ,S/o Moideenkunhi
									5	M.Raghava,(Rtd.Engineer) Krishna Hospital.
				254/1	254/1	Govt.	Poramboku	40		Water Authority of Kerala
				254/2	254/4	Private	Dry	215	1	Beepathumma,D/o C.A. Moideenkunhi.
									2	Water Authority of Kerala
									3	Nushad Juma Masjid Committee
				254/3	254/5	Govt.	Poramboku	125		Water Authority of Kerala
					254/6	Private	Dry	111	1	Badrudeen
									2	Dr.Dineshkumar, S/o Kunhikelu Nambiar
					254/7	Private	Dry	2		Dr.Dineshkumar, S/o Kunhikelu Nambiar and Others.
				255/1	255/7	Private	Dry	29		Harish , S/o Krishna Nair, Paravanadukkam.
					255/8	Private	Dry	267		Secretary, Kasaragod Co-operative Marketing & Processing Society.
				258/1	258/3	Private	Dry	280	1	C.A. Aboobacker
									2	C.T.Mariambi, W/o M.S. Shali
									3	T.A. Abdulkhader & B.K Ibrahim
									4	C.T. Abdul Mansoor, S/o Abbaskutty
				258/2	258/4	Private	Dry	75		Bharath Scout & Guides
				259/1	259/11	Private	Dry	687		Mahesh, Kaniyoor Enterprises
				259/2	259/12	Private	Dry	156		M.K Abdul Khader & M.Kunhamu
				259/3	259/13	Private	Dry	1		Sarojini, W/o Nandan(n)Late)
					259/14	Private	Dry	1		Sarojini, W/o Nandan(n) Late)
				259/4	259/15	Private	Dry	192	1	Kunhikannan, Akash Auditorium Kanhangad
									2	Abdul Razak S/o Abdul Rahman, Naimarmoola
									3	A.H.Ibrahim, S/o Abdulla Haji, Chuduvallappil
				259/5	259/16	Private	Dry	153		C.A.Abbobacker ,S/o Abdulla Haji , Chuduvallappil.
				111/1A2	111/11	Private	Dry	15	1	Babu
									2	Pundalika Shenoy & Others
				98/6	98/9	Private	Dry	8		K.V.Kunhikannan ,Bindu Jewellery
				123/16	123/22	Govt.	Poramboku	250		Secretary , Kasaragod Municipality
				152/2	152/3	Private	Dry	48		Sri Ayyappa Kshethra, Nullipady
				183/1	183/5	Private	Dry	10		K.Vijayakumar and others.
				183/2A	183/6	Private	Dry	20	1	K.Vijayakumar
									2	Harinakshi & 3 Others

						3	Smt.Kathima
	232/3	232/9	Private	Dry	60		Beepathumma & Others
	232/4	232/10	Private	Dry	19		Beepathumma
	232/5	232/11	Private	Dry	16		Secretary Municipality Kasaragod
	239/2	239/5	Govt.	Dry	111		Govt.College,Kasaragod, Collegiate Education Department
	239/3	239/6	Govt.	Dry	141	1	District Tourisam Promotion Council
						2	Govt.College,Kasaragod, Collegiate Education Department
(5) Chengala	43/1	43/9	Private	Dry	23.99	1	M.C.Abdulkhader, S/o Muhammed , K.M.C Home, 4th Mile, Chengala.
						2	Faisy Ustad, Zahira Manzil, 4th Mile, Chengala(P.O)
						3	Beefathima, W/o Mammu Thottathil(House)Santhosh Nagar, Chengala
						4	Kaleel, Modern Wood Works, Santosh Nagar, Chengala(PO)
	43/7	43/10	Private	Dry	6.26		Abdul Khader S/o M.A Ahammed kunhi,Asma Manzil, Chengala
	44/16	44/20	Private	Dry	1.41		B.A Yousaf, S/o C.Abdulkhader Haji(late)
	2/1	2/12	Private	Dry	21	1	T.M Ibrahim S/o Mammunhi, Naimarmoola, Vidyanagar (PO)
						2	Asharaf S/o Ibrahim, Provision Store, Naimarmoola and Others.
	2/2	2/13	Private	Dry	16		Kolikkadavu Aboobacker, Naimarmoola and others
	2/3	2/14	Private	Dry	17		Beefathima, W/o Late Abdulla, Naimarmoola, Rahmath Building, Vidyanagar (PO),
	2/4	2/15	Private	Dry	21		C.K Moideenkunhi, Kalpaka House, Naimarmoola, Vidyanagar (PO)
	2/5	2/16	Private	Dry	10	1	Mariyumma W/o Late Ibrhaim, N.A House, Naimarmoola
						2	B.M Ahammad haji, S/o Mamoonhi Haji, Ermalum House and othres
		2/17	Private	Dry	110	1	Mariyumma W/o Late Ibrhaim, N.A House, Naimarmoola
						2	B.M Ahammad haji, S/o Mamoonhi Haji, Ermalum House and others
	2/6	2/18	Private	Dry	27		K.M Mohammad and P.V Ahammad, Naimarmoola, Vidyanagar (PO)
	2/7B1	2/19	Private	Dry	106		P.V Ahammad, Naimarmoola, Vidyanagar (PO)
	2/7C	2/20	Private	Dry	54		N.A Mohammad Sali, S/o N.A Abdulla Haji, Rahimath Manzil, Naimarmoola, Vidyanagar (PO)
	2/11	2/21	Private	Dry	139		Asainar Haji, S/o Abdul Khadar, Moolayil House, Panalam
	3/1A	3/18	Private	Dry	120		K.H Kunhali,S/o Khader Hassan ,Cheroor (P.O),Naimarmoola & others.
	3/1B	3/12	Private	Dry	18		K.H Kunhali,S/o Khader ,Cheroor (P.O),Naimarmoola & others.
	3/2	3/13	Private	Dry	48		K.H Kunhali,S/o Khader ,Cheroor

						(P.O),Naimarmoola & others.
3/9	3/14	Private	Garden	168		P.K.Hassan, S/o Late Khader Haji,Moolayil House, Cheroor (P.O) & others
	3/15	Private	Garden	16		P.K.Hassan, S/o Late Khader Haji,Moolayil House, Cheroor (P.O) & others
3/10	3/16	Private	Dry	170		Kunnil Abdulkhader ,S/o Abdulrahiman ,Kunnil House, Cheroor (P.O) & others
3/11	3/19	Private	Dry	35		Kunnil Abdulkhader ,S/o Abdulrahiman ,Kunnil House, Cheroor (P.O) & others
	3/20	Private	Dry	15		Kunnil Abdulkhader ,S/o Abdulrahiman ,Kunnil House, Cheroor (P.O) & others
6/1	6/16	Private	Dry	40		Muhammed, Panalam(house) Near Moideen Juma Masjid.
6/2A	6/11	Private	Dry	303	1	Usman S/o Amoo Haji,Kunil House & others.
	6/12	Private	Dry	18	2	Ibrahim Haji, Panalam House
6/2B	6/13	Private	Dry	28		Sameera,W/o Moideenkunhi Ermala House, Alampady P.O & others.
6/4A	6/14	Private	Dry	50		Muhammed Kunhi,S/o Abdulkhader, Panalam(house)Cheroor P.O & others
6/4B	6/15	Private	Dry	240		Mohammed Ismail Haji ,S/o Mohammed, Panalam House, Cheroor
8/1	8/15	Private	Dry	59		K.A.Basheer ,S/o K Ahammed Haji , Darusalam House ,Panalam
39/1	39/6	Private	Dry	692	1	Ahammed S/o Muhammed Manchanadukka House ,Badar Nagar, Chengala P.O & others
					2	Mohammed ,S/o Abdulla, Manchanadukka House
					3	Shafi, S/o Abbas Haji, Madannoor Manzil MD Nagar Thalangara
39/2	39/7	Private	Dry	754	1	Maramoideen Masjid, Santhosh Nagar
					2	Aboobacker, Alampady & others
39/5	39/8	Govt.	Poramboku	30		Secretory Chengala Grama Panchayath
160/7	160/10	Private	Dry	147		Ishaq S/o Ibrahim, Star Nagar, Bevinje
	160/11	Private	Dry	72	1	Mansoor W/o Noushad,Starnagar
					2	Abookacker S/o Abdulla ,Star Nagar
					3	Sulu, W/o Ravi, Kollarammoola, Starnagar
					4	Abdulrahiman ,S/o Kunhammed,Kollarammoola,StarNagar
					5	Muhammed Kunhi, S/o Abdul Khader, Star Nagar and others
161	161/2	Private	Dry	1545	1	Mariyumma C.M .House, Star Nagar
					2	MammedKunhi, S/o Aboobacker,Star Nagar & others

				166/1	166/3	Private	Dry	5580		Chandrashekharan Nambiar, S/o Malinga Nair, Koyanganam & others
				173/1A1	173/6	Govt.	Poramboku	28		A.W
				174/2A	174/9	Private	Dry	29		Ahammed S/o Mohammed & Others
				174/3A	174/10	Private	Garden	4		M.T Muhammed Kunhi S/o Abdul Rahiman and others.
				174/3C	174/11	Private	Garden	300		Muhammedkunhi, S/o Moidu and others
				174/4B	174/12	Private	Garden	10		Ummalimma & 5 others Bevinje
				48/1	48/7	Private	Garden	86		Abdul Khader Haji , Maharba, Panarkulam, Chengala.
				48/4	48/9	Private	Garden	248		N.A Abdulla S/o Abdulrahman, Maimoona Manzil,Panarkulam.
				48/6	48/8	Private	Garden	148		Ibrahim, Panarkulam & others.
				58/1	58/4	Private	Dry	100		A.M Muhammed S/o Abdulkhader , Arial house Chengala.
				58/2A	58/5	Private	Dry	98		C.Kunhammed Haji Bodria Manzil & others.
				58/2B1	58/6	Private	Dry	220		Yousef , Badria & others
				58/3	58/7	Govt.	Poramboku	80		Poramboke
					58/8	Govt.	Poramboku	35		Poramboke
				106/1A	106/10	Private	Dry	59	1	Secretary,Mubarak Masjid, Indira Nagar, Chengala(PO)
									2	M.Ibrahim S/o Moideenkutty, Thalakandam (House), Perumbalakadav, Perumbala(PO)
				106/1B	106/11	Private	Dry	81	1	Maimood S/o Abdulla Fazmina Manzil, Indira Nagar, Chengala (PO)
									2	Muhammed S/o Abdulla Brothers Compound, Indira Nagar, Chengala (PO)
									3	Pattel Khaleel,Indira Nagar, Chengala (PO)
				106/2	106/12	Private	Dry	342	1	Mammu S/o Moideenkunhi, Kaniadukka (House), Indira Nagar, Chengala (PO)
									2	Ayisha W/o Abdul Khadar (Late), Kaniadukka (House), Indira Nagar, Chengala (PO)
									3	Khadeeja W/o (Late), Ibrahim, Kaniadukka Compound,Indira Nagar, Chengala (PO) & Others
				106/3	106/13	Private	Garden	111		Muhammed Habeeedulla, S/o K.S Abdulla, Habeeb Manoor, 5 th mile Chengala (PO)
				106/4	106/14	Private	Garden	104		I.S Habeeed and Nabeesa, Shahanans Manzil, 5th mile Chengala (PO)
				107/1	107/9	Private	Dry	97	1	Fazlar Rahiman.K.M, S/o K.M Abdullakunhi, 5th mile Chengala (PO)
									2	Muhammed Haji
				107/2	107/10	Private	Garden	86		K.Kunhali, S/o Muhammed and others
				111/1A1	111/6	Private	Dry	72		Thahira Muhammed, W/o Mammed, Nargish Villa, Chengala
				111/1B	111/7	Private	Dry	4		A.M. Muhammed & A.M Ashraf &

						Others.
111/2	111/8	Private	Dry	25		Abdulrahiman S/o K.Muhammed , Kudroli, Cherkala
111/4B	111/10	Private	Dry	4		Secretary Chengala Grama Panchayath, Existing Road.
111/4A	111/9	Private	Dry	10		C.Mohammed, S/o C.Abdulla, Chengala.
128/4	128/6	Private	Dry	562		A.Abdul Rasheed,Managing Director, Khaja Island
113/2A	113/5	Private	Garden	47		Fathima W/o Kunhali(Late), 5th mile Kaniyadukka house, Chengala (PO)
174/6B	174/13	Private	Garden	130		Abdul Rahiman and others.
174/7	174/14	Private	Garden	25		Didippa Ahammed Bevinje and others
174/8	174/15	Private	Garden	140		Kunhammed Haji, Bevinje and others
175/2	175/8	Govt.	Poramboku	40		Secretary,Chengala Grama Panchayath, Thodu Poramboke.
175/3A	175/9	Private	Garden	965	1	C.H abdul Khadar Haji, S/o Chopaly Alikunhi
					2	Mariyabi, W/o Abdul Rahiman
					3	Ibrahim S/o Andunhi and others
179/3A	179/6	Private	Garden	266		Mammed S/o Bunkat Abdulla and others
179/4A	179/7	Private	Dry	36		Ummali D/o Abdul Rahiman, Bevinje
186/4	186/13	Private	Garden	420		Ibrahim, S/o Andu & others.
186/10B	186/14	Private	Dry	30		Ummalimma & 5 others
186/1B	186/11	Private	Garden	2		M.T.Ahammadali, S/o M.R. Abdul Rahiman & Others
186/3B	186/16	Private	Dry	350	1	M.T.Ahammadali, S/o M.R. Abdul Rahiman
					2	M.T.Moosa S/o M.R. Abdul Rahiman
190/1	190/5	Private	Dry	985		T.M. Muhammed Kunhi S/o Abdullakunhi New Bevinja, Thekil Ferry and Others.
190/2	190/6	Private	Dry	829	1	Mariyamma, D/o Mohammed
					2	K.V.S Abdulla, S/o Aglapady Ahammed & Others.
190/3	190/7	Private	Dry	1459		Vomazha Mammed Bevinje & others.
190/4	190/8	Private	Dry	2601		T.M Muneer , S/o Abdullakunhi and others.
206/1A	206/7	Private	Dry	1485		Chandukutty Nair, Kundadukka, Chengala (P.O) & others.
206/1B	206/9	Private	Dry	214		Abdul Rahiman and others.
214/1A3	214/10	Private	Dry	477	1	Muhammed Shafi P.M
					2	Amoo, S/o P.K.Abdulla
					3	Nizar & others.
214/1B	214/8	Private	Garden	100	1	Muhammed Haji
					2	Kovval Muhammed, Kovval House,Thekkil(P.O) & others.
214/3	214/9	Private	Dry	900	1	K.Kunhamu Haji & Nabeesa
					2	Muhammed Shafeeq ,S/o Kunhamu Haji

						3	Aboobacker , S/o Mhammed & Others.
		203/1	203/2	Private	Dry	750	Krishnan, S/o Kunhambu Nair, Kundadukka & others.
	(6) Muttathody	283/5	283/7	Private	Dry	695.84	1 U.A Haneefa, S/o Abdulla
							2 U.A Aboobacker, S/o Abdulla
							3 Hameed Muhammed
							4 Abbas .C & others Alampady
		283/6	283/8	Private	Dry	27.21	Ayisha W/o Abdulrahiman K.A & others
		284/1	284/4	Private	Dry	68.54	K.A.Abdul Muneer & Others
		284/3	284/5	Private	Dry	267.37	P.A.Muhammed Haji S/o Abdulla Haji, Santhosh Nagar & Others
		285/5D	285/6	Private	Dry	180.76	Ahammed, Chengala & others
		385	385/2	Private	Garden	634.07	Abdulkhader Haji, Menangode, Chengala & others
		386/4A	386/7	Private	Garden	236.49	Abdulhameed K.K S/o K.A Kunhali, Indira Nagar, P.O Chengala and others
		386/4B	386/9	Private	Garden	99.34	B.K Mahin(Advocate), Indiranagar,Chengala P.O
		287/1	287/8	Private	Dry	120.57	B.K Mahin(Advocate), Indiranagar,Chengala P.O & Others
		287/4A	287/9	Private	Garden	32.03	1 Sheeba
							2 Muhammed Shafi
							3 Ibrahim
							4 Jabbar
							5 Basheer Haji & Others(Timber Marchant)
		207/1D	207/4	Private	Dry	45.80	Secretary CPM Office (AKG Mandiram) , Kasaragod
		211/3	211/9	Private	Dry	6.55	N.A Muhammed S/o Abdulrahiman,Naimarmoola
		211/2	211/7	Private	Dry	14.94	Town Basar Juma Masjid,Naimarmoola
		211/4	211/10	Govt.	Poramboku	6.02	Poramboku PWD
		211/6	211/11	Private	Dry	65.11	C.A.Beefathima, W/o N.A Moideenkunhi Haji & others
		265/3B1	265/11	Private	Dry	52.82	P.P.Ibrahim,S/o Pocker Haji,Naimarmoola,Vidyanagar P.O & Others.
		265/4	265/12	Private	Dry	84.31	E.A.Muhammed S/o E.Abdul Rahiman, Naimarmoola & others
		265/9	265/13	Private	Dry	13.62	Sakeer S/o P.B Aboobacker , Naimarmoola
		265/10	265/14	Private	Dry	37.47	Zakkeer ,S/o Aboobacker Naimarmoola
		266/3A	266/5	Private	Dry	104.32	1 P.B.Ahammed,S/o Beeran
							2 Zakkeer ,S/o Aboobacker Naimarmoola
							3 Nabeesa ,W/o Nekre Aboobacker ,Naimarmoola

				210/6	210/10	Private	Dry	31	1	Ibrahim, Abbas and Others, Children of Moideen Kunhi Haji, MKH Compound, Nainmarmoola, Vidyanagar.P.O
									2	K.A.Ayisha, W/O M.Ibrahim, Fathima Manzil, MKH Compound, Nainmarmoola, Vidyanagar.P.O
									3	M.Ibrahim, S/O Moideen Kunhi Haji, Fathima Manzil, MKH Compound, Nainmarmoola, Vidyanagar.P.O
				210/7A	210/11	Private	Dry	9		Town Bazar Juma Masjid, Nainmarmoola,
				210/7B	210/12	Private	Dry	43		Town Bazar Juma Masjid, Nainmarmoola,
				211/1	211/12	Private	Dry	1		Town Bazar Juma Masjid, Nainmarmoola,
				285/2	285/7	Private	Dry	38		Rukhya & Others, D/o Abdulla Haji, Sullya
				386/5	386/10	Private	Garden	205	1	K.M.Muhammed Haji, S/o Abdulla, Kariadukka(house) Muttathody
									2	M.A.Muhammed, S/o M.P.Abdulla, MP House.Po Chengala & Others
				282	282/3	Private	Dry	18		Muhammed , S/o Umboo, Nainmarmoola
				382	382/3	Private	Dry	19		Mahamood.P.M & Others, P.M.Mahamood Manzil, Eriyappadi, Alampady.P.O
				387	387/4	Private	Dry	49	1	Aneesha Mujeeb Rahuman, S/o Kunhali, Mangad P.O, PHC Chengala
									2	C.M Abdulkhader, C.M Complex, PWD Contractor
					387/5	Private	Dry	11		PHC Chengala, Public Health Department.
		(2) Hosdurg	(1) Panayal	73/2	73/4	Private	Dry	65		M. Abdulla, M.K.H. Compound, Nayanmarmoola Vidyanagar (PO).
				73/3	73/5	Private	Dry	63		M. Abdulla, M.K.H. Compound, Nayanmarmoola Vidyanagar (PO).
				161/3	161/5	Private	Dry	69		K.Raveendran Nair, 'Souparnika', Periyatadukkam.
				169/4	169/18	Private	Dry	433		Prabhakaran. M, S/o Santhamma Maikan House, Panayal PO, Bekal Via.
				193/1	193/6	Private	Garden	342	1	C.P.Fathima & Pattunhi, D/o AbdulRahiman. Rashid Manzil, Cherumba.
									2	Rabiya.C.H, W/o Ahammedali.P, Mundol.
									3	C.H.Aboobacker Haji, &Sainabi, S/o Abbas, Amariya House,Cherumba, Panayal Village.
				193/5B	193/7	Private	Dry	62		Haris.K.A, S/o Abdulla, Haji Nagar, Kuniya, Panayal village.
				193/5C	193/8	Private	Dry	57		K. Muhammed Kunhi, S/o Abdulla, Zareena Manzil, Haji Nagar, Melekuniya
				201/1B	201/6	Private	Dry	56	1	C.K. Abdul Sathar, S/o Assainar, Periyattadukkam.

								2	C.H.Aboobacker Haji, S/o Kalanad Abbas, Cherumba , Panayal Village.
								3	C.H. Moideenkunhi, Periyattadukkam, Private Road.
								4	M. Abdul Rahiman, S/o Cherumba Muhammed Riyana Villa, Periyattadukkam.
			201/5	201/7	Private	Dry	90	1	C.K. Kunhabdulla, S/o Assainar, Periyattadukkam, Panayal Village.
								2	C.K. Abdul Sathar, S/o Assainar, Periyattadukkam.
		(2) Pilicode	70/2A2	70/8	Govt	Dry	4		AW Land (Revenue)
			204/5D	204/20	Private	Garden	353		Balakrishnan. K, S/o Kunhambu, Balakrishnan Nivas, Paduvalam, PO Pilicode
			204/5E	204/21	Private	Garden	310	1	M. Thamban, S/o Raman, Meethale veedu, Paduvalam, Pilicode
								2	M. Appukuttan, S/o Raman, Meethale Veedu, Paduvalam
								3	Gopalan. M.V
			204/5F	204/22	Private	Garden	366	1	Suresh Pattathi, H/o Deepa. K, Paduvalam, Pilicode
								2	K. Narayani, W/o (L)Kumaran Nair, Kallath, Paduvalam, Pilicode.
			204/5G	204/23	Private	Garden	195		K.M. Narayani, D/o P.P. Kunahambu (Late), Paduvalam, Pilicode
				204/29	Govt	Garden	176		AW Land (Revenue)
			204/5H	204/24	Private	Garden	287		K.M. Narayani, D/o P.P. Kunahambu (Late), Paduvalam, Pilicode
			204/6A	204/25	Private	Garden	112		K.M. Narayani, D/o P.P. Kunahambu (Late), Paduvalam, Pilicode
			204/6B1	204/26	Govt.	Dry	77		AW Land (Revenue)
			204/6F	204/27	Private	Garden	124		K.M. Pathmavathy, D/o.P.T. Kunhambu, Kanayi House, Paduvalam , Pilicode
			204/6H	204/28	Private	Garden	1		P.V. Ambu, S/o Raman, Puthiyavalappil, Paduvalam, Pilicode PO
			227/3B	227/3B	Govt	Dry	58		AW Land (Revenue)
			228/1A	228/1A	Govt	Dry	189		AW Land (Revenue)

[F. No. NHAI/11013/LA/Kerala/NH-17/Kerala Karnataka Border to Kannur/3D]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.